

Roll No.

Question Booklet Number

O. M. R. Serial No.

--	--	--	--	--	--	--	--

B. Com. (Part II) EXAMINATION, 2022

(New Course)

Group-C

Paper Fifth

PUBLIC FINANCE

Paper Code

0	4	0	4
---	---	---	---

Questions Booklet
Series

C

Time : 2:00 Hours]

[Maximum Marks : 100

Instructions to the Examinee :

1. Do not open the booklet unless you are asked to do so.
2. The booklet contains 100 questions. All questions are compulsory. All questions carry equal marks.
3. Examine the Booklet and the OMR Answer-Sheet very carefully before you proceed. Faulty question booklet due to missing or duplicate pages/questions or having any other discrepancy should be got immediately replaced.

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश :

1. प्रश्न-पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक आपसे कहा न जाए।
2. प्रश्न-पुस्तिका में 100 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
3. प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न-पुस्तिका तथा OMR आन्सर-शीट को सावधानीपूर्वक देख लें। दोषपूर्ण प्रश्न-पुस्तिका जिसमें कुछ भाग छपने से छूट गए हों या प्रश्न एक से अधिक बार छप गए हों या उसमें किसी अन्य प्रकार की कमी हो, तो उसे तुरन्त बदल लें।

(Remaining instructions on the last page)

(शेष निर्देश अन्तिम पृष्ठ पर)

(Only for Rough Work)

- | | |
|--|---|
| <p>1. योजना आयोग का नाम बदलकर किया गया है।</p> <p>(A) नीति कमीशन</p> <p>(B) योजना आयोग</p> <p>(C) नीति आयोग</p> <p>(D) योजना परिषद्</p> | <p>1. Planning Commission has been renamed as</p> <p>(A) Neeti Commission</p> <p>(B) Yojana Aayog</p> <p>(C) NITI Aayog</p> <p>(D) Planning Council</p> |
| <p>2. वित्त आयोग का गठन भारत के द्वारा किया गया जाता है।</p> <p>(A) राष्ट्रपति</p> <p>(B) प्रधानमंत्री</p> <p>(C) वित्त मंत्री</p> <p>(D) भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर</p> | <p>2. Finance Commission is constituted by of India.</p> <p>(A) President</p> <p>(B) Prime Minister</p> <p>(C) Finance Minister</p> <p>(D) Governor of RBI</p> |
| <p>3. निम्नलिखित में से कौन-सा संघीय वित्त का एक सिद्धान्त नहीं है ?</p> <p>(A) पर्याप्तता</p> <p>(B) स्वतंत्रता</p> <p>(C) एकरूपता</p> <p>(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं</p> | <p>3. Which of the following is not a principle of Federal Finance ?</p> <p>(A) Adequacy</p> <p>(B) Independence</p> <p>(C) Uniformity</p> <p>(D) None of the above</p> |

- | | |
|---|--|
| <p>4. ऋण शोधन कोष में जमा की जाने वाली राशि से प्राप्त करनी चाहिए।</p> <p>(A) कर</p> <p>(B) ऋण</p> <p>(C) दोनों (A) और (B)</p> <p>(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं</p> | <p>4. The amount to be deposited in debt redemption fund should be obtained from</p> <p>(A) Taxes</p> <p>(B) Debts</p> <p>(C) Both (A) and (B)</p> <p>(D) None of the above</p> |
| <p>5. परोक्ष कर की श्रेणी में आता है :</p> <p>(A) सम्पत्ति कर</p> <p>(B) सम्पदा कर</p> <p>(C) उत्पादन कर</p> <p>(D) बिक्री कर</p> | <p>5. The Tax which comes under Indirect Tax is :</p> <p>(A) Property Tax</p> <p>(B) Estate Tax</p> <p>(C) Excise Tax</p> <p>(D) Sales Tax</p> |
| <p>6. जो व्यक्ति सरकार को अन्तिम रूप में कर अदा करता है, उस पर होता है :</p> <p>(A) करापात</p> <p>(B) कराघात</p> <p>(C) कर-विवर्तन</p> <p>(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं</p> | <p>6. The person who ultimately pays the tax to the Government on him, there is :</p> <p>(A) Incidence of Tax</p> <p>(B) Impact of Tax</p> <p>(C) Shifting of Tax</p> <p>(D) None of the above</p> |

7. कर-विवर्तन किया जा सकता है :

- (A) पीछे की ओर
- (B) आगे की ओर
- (C) उपर्युक्त दोनों तरीकों से
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

8. “केवल भूमि पर ही कर लगाया जाना चाहिए।”

यह विचार दिया गया :

- (A) करापात के आधुनिक सिद्धान्त में
- (B) करापात के प्रसरण सिद्धान्त में
- (C) करापात के संकेन्द्रण सिद्धान्त में
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

9. “आर्थिक दृष्टिकोण में सबसे अच्छी कर प्रणाली वही है जिसके आर्थिक प्रभाव सबसे अच्छे हों अथवा यदि कोई बुरा प्रभाव भी पड़े तो वह कम-से-कम हो।” यह कथन है :

- (A) डाल्टन का
- (B) श्रीमती हिक्स का
- (C) प्रो. लर्नर का
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

7. Tax shifting can be done :

- (A) Backward
- (B) Forward
- (C) Both of the above
- (D) None of the above

8. “Tax should be levied only on land.” This view is given in :

- (A) Modern Theory of Tax incidence
- (B) Diffusion Theory of Tax incidence
- (C) Concentration Theory of Tax Incidence
- (D) None of the above

9. “The best system of taxation from the economic point of view is that which has the best or the least bad economic effects.” This statement is of :

- (A) Dalton
- (B) Mrs. Hicks
- (C) Prof. Lerner
- (D) None of the above

- | | |
|--|---|
| <p>10. आय की माँग बेलोचदार होने पर कारारोपण उत्पादन में :</p> <p>(A) वृद्धि कर देते हैं</p> <p>(B) कमी कर देते हैं</p> <p>(C) कोई प्रभाव नहीं डालते हैं</p> <p>(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं</p> | <p>10. In case of inelasticity of demand due to taxation, production will :</p> <p>(A) Increase</p> <p>(B) Decrease</p> <p>(C) Remain same</p> <p>(D) None of the above</p> |
| <p>11. आय के वितरण की असमानता कम करते हैं :</p> <p>(A) आनुपातिक कर</p> <p>(B) प्रतिगामी कर</p> <p>(C) अधोगामी कर</p> <p>(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं</p> | <p>11. Inequality in distribution of Income is reduced by :</p> <p>(A) Proportional Tax</p> <p>(B) Regressive Tax</p> <p>(C) Degressive Tax</p> <p>(D) None of the above</p> |
| <p>12. देश में अवस्फीति की स्थिति में सरकार को :</p> <p>(A) जनता से ऋण लेना चाहिए</p> <p>(B) जनता को ऋण वापस करना चाहिए</p> <p>(C) नये ऋण लेने चाहिए</p> <p>(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं</p> | <p>12. In case of deflation the government should :</p> <p>(A) Take loan from Public</p> <p>(B) Make payment of Loan to the Public</p> <p>(C) Issue new debt</p> <p>(D) None of the above</p> |

13. जिन ऋणों का प्रत्यक्ष मौद्रिक भार नहीं होता, उन्हें कहते हैं :

- (A) व्यक्तिगत ऋण
- (B) आन्तरिक ऋण
- (C) बाह्य ऋण
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

14. निम्नलिखित में से कौन-सा कर केन्द्र एवं राज्य सरकारों के मध्य वितरित किया जाता है ?

- (A) आयकर
- (B) स्टाम्प शुल्क
- (C) दोनों (A) और (B)
- (D) उत्पाद शुल्क

15. युद्धकालीन वित्त व्यवस्था के लिए :

- (A) कर लगाये जाते हैं
- (B) ऋण लिए जाते हैं
- (C) दोनों (A) और (B)
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

13. The debts which have no direct money burden are called :

- (A) Individual debt
- (B) Internal debt
- (C) External debt
- (D) None of the above

14. Which of the following taxes is distributed between Central Government and State Governments ?

- (A) Income Tax
- (B) Stamp duty
- (C) Both (A) and (B)
- (D) Excise duty

15. For war financing :

- (A) Taxes are imposed
- (B) Loans are taken
- (C) Both (A) and (B)
- (D) None of the above

16. राज्य सरकार की व्यय की मदों को भागों में बाँटा गया है।
- (A) 6
(B) 5
(C) 4
(D) 3
17. निम्नलिखित में से कौन-सा कर न्याय सिद्धान्त की अधिकतम पूर्ति करता है ?
- (A) आयकर
(B) उत्पादन कर
(C) मनोरंजन कर
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
18. सामान्यतः करारोपण का पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
- (A) बचत करने की योग्यता
(B) काम करने की योग्यता
(C) दोनों (A) और (B)
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
16. Item of expenditure of State Government has been divided into parts.
- (A) 6
(B) 5
(C) 4
(D) 3
17. Which of the following taxes maximum satisfies the theory of the Justice ?
- (A) Income Tax
(B) Production Tax
(C) Entertainment Tax
(D) None of the above
18. Generally the taxation has adverse effect on
- (A) Ability to save
(B) Ability to work
(C) Both (A) and (B)
(D) None of the above

19. आय के वितरण की असमानता को कम करता है।
- (A) प्रतिगामी कर
(B) अधोगामी कर
(C) आनुपातिक कर
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
20. निम्नलिखित में से कौन करदान क्षमता का एक निर्धारक तत्व है ?
- (A) धन का वितरण
(B) जनसंख्या का आकार
(C) कर प्रणाली का रूप एवं प्रकृति
(D) उपर्युक्त सभी
21. बाह्य ऋण देश के वास्तविक कल्याण को।
- (A) कम करते हैं
(B) बढ़ाते हैं
(C) प्रभावित नहीं करते हैं
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
19. Inequality in distribution of Income is reduced by
- (A) Regressive Tax
(B) Degressive Tax
(C) Proportional Tax
(D) None of the above
20. Which of the following is a determinant of taxable capacity ?
- (A) Distribution of wealth
(B) Size of population
(C) Form and nature of tax system
(D) All of the above
21. External debt the real welfare of the country.
- (A) Decreases
(B) Increases
(C) Does not affect
(D) None of the above

22. सार्वजनिक ऋणों का भुगतान करने के लिए व्यक्तियों की सम्पत्ति पर लगाने वाले विशेष कर को कहते हैं।
- (A) सम्पत्ति कर
(B) अप्रत्यक्ष कर
(C) पूँजी कर
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
23. निम्नलिखित में से कौन-सा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का एक अप्रत्यक्ष उपाय नहीं है ?
- (A) मूल्य नीति
(B) राजकोषीय नीति
(C) मौद्रिक नीति
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
24. निम्नलिखित में से कौन-सा करदाता पर करापात से सम्बन्धित है ?
- (A) निर्यात कर
(B) आयात कर
(C) आयकर
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
25. प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे ?
- (A) श्री के. सी. नियोगी
(B) श्री सी. के. नियोगी
(C) श्री ए. के. नियोगी
(D) श्री एस. के. नियोगी
22. The special tax imposed on assets of people to redeem public debt is called :
- (A) Estate duty
(B) Indirect tax
(C) Capital levy
(D) None of the above
23. Which of the following is not an indirect measure to promote economic development ?
- (A) Price Policy
(B) Fiscal Policy
(C) Monetary Policy
(D) None of the above
24. Which of the following taxes are related to tax impact on tax payers ?
- (A) Export Duty
(B) Import Duty
(C) Income Tax
(D) None of the above
25. Who was the chairman of first Finance Commission ?
- (A) Shri K. C. Niyogi
(B) Shri C. K. Niyogi
(C) Shri A. K. Niyogi
(D) Shri S. K. Niyogi

26. दसवें वित्त आयोग में आयकर में राज्यों हेतु प्रतिशत हिस्से के लिए सुझाव दिया था।
- (A) 77.5
(B) 97.5
(C) 87.5
(D) 67.5
27. तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसायें अवधि के लिए थीं।
- (A) 2007–12
(B) 2006–11
(C) 2005–10
(D) 2010–15
28. डाल्टन की पुस्तक “पब्लिक फाइनेन्स” वर्ष में प्रकाशित हुई।
- (A) 1912
(B) 1922
(C) 1932
(D) 1942
29. “कर सभ्यता का मूल्य है” के द्वारा कहा गया था।
- (A) डाल्टन
(B) मसग्रेव
(C) न्यायमूर्ति होम्स
(D) हिक्स
26. Tenth Finance Commission suggested percent state share in Income Tax.
- (A) 77.5
(B) 97.5
(C) 87.5
(D) 67.5
27. The recommendations of 13th Finance Commission were for the period of
- (A) 2007–12
(B) 2006–11
(C) 2005–10
(D) 2010–15
28. Dalton’s book “Public Finance” was published in the year
- (A) 1912
(B) 1922
(C) 1932
(D) 1942
29. “Tax is price of civilization” has been said by
- (A) Dalton
(B) Musgrave
(C) Justice Homes
(D) Hicks

30. निम्नलिखित में से कौन-सा कर विवर्तन का एक सिद्धान्त नहीं है ?
- (A) परम्परागत सिद्धान्त
(B) आधुनिक सिद्धान्त
(C) सन्तुलन सिद्धान्त
(D) प्रसरण सिद्धान्त
30. Which of the following is not the theory of Shifting of Tax ?
- (A) Classic Theory
(B) Modern Theory
(C) Balanced Theory
(D) Diffusion Theory
31. यदि उत्पादन उत्पत्ति वृद्धि नियम पर आधारित है, तो वस्तुओं के मूल्य ।
- (A) बढ़ेंगे
(B) घटेंगे
(C) स्थिर रहेंगे
(D) अप्रभावित रहेंगे
31. If production is based on law of increasing return, the price of commodities will
- (A) Increase
(B) Decrease
(C) Remain stable
(D) Remain unaffected
32. यदि माँग कम लोचदार है, तो कर के अधिकांश भाग का भुगतान के द्वारा दिया जायेगा ।
- (A) क्रेता
(B) विक्रेता
(C) दोनों (A) और (B)
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
32. If demand is less elastic, the major part of tax will be paid by
- (A) Purchaser
(B) Seller
(C) Both (A) and (B)
(D) None of the above
33. यदि उत्पत्ति ह्रास नियम के अन्तर्गत उत्पादन किया जा रहा है, तो कर का भार पर पड़ेगा ।
- (A) उत्पादक
(B) क्रेता
(C) दोनों (A) और (B)
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
33. If production is being done under the law of diminishing return, the burden of taxation will be on
- (A) Manufacturer
(B) Direct
(C) Both (A) and (B)
(D) None of the above

34. निम्नलिखित में से कौन-सा करदान क्षमता के मापन का आधार है ?
- (A) कुल आय विधि
(B) उत्पादन विधि
(C) दोनों (A) और (B)
(D) वितरण विधि
35. करापात होना चाहिए।
- (A) मौद्रिक
(B) प्रत्यक्ष
(C) दोनों (A) और (B)
(D) अप्रत्यक्ष
36. स्थानीय वित्त जाँच समिति का गठन वर्ष में हुआ था।
- (A) 1947
(B) 1949
(C) 1948
(D) 1950
37. जी. एस. टी. अनुपालन रेटिंग के अन्तर्गत आती है।
- (A) धारा 151
(B) धारा 139
(C) धारा 149
(D) धारा 150
34. Which of the following is a basis of measurement of taxable capacity ?
- (A) Aggregate Income method
(B) Production method
(C) Both (A) and (B)
(D) Distribution method
35. Incidence of Taxation should be
- (A) Monetary
(B) Direct
(C) Both (A) and (B)
(D) Indirect
36. Local Finance Enquiry Committee was constituted in the year
- (A) 1947
(B) 1949
(C) 1948
(D) 1950
37. GST compliance rating comes under
- (A) Section 151
(B) Section 139
(C) Section 149
(D) Section 150

38. भारत में आर्थिक नियोजन वर्ष में प्रारम्भ हुआ था।
- (A) 1934
(B) 1935
(C) 1936
(D) 1937
39. बढ़े हुए लोक व्यय से बढ़ती है।
- (A) जनता की क्रय शक्ति
(B) कर की दरें
(C) जनता की मौद्रिक आय
(D) जनता के व्यय
40. प्रान्तीय स्वायत्तता अधिनियम वर्ष में पारित हुआ था।
- (A) 1934
(B) 1935
(C) 1936
(D) 1937
41. अप्रत्यक्ष कर होते हैं।
- (A) प्रगतिशील
(B) प्रतिगामी
(C) अधोगामी
(D) अनुपातिक
42. निम्नलिखित में से कौन-सा प्रत्यक्ष कर नहीं है ?
- (A) आयकर
(B) व्यय कर
(C) निगम कर
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
38. Economic planning in India was commenced in the year
- (A) 1934
(B) 1935
(C) 1936
(D) 1937
39. Increased Public expenditure increases
- (A) Purchasing Power of Public
(B) Tax Rates
(C) Monetary Income of Public
(D) Expenditures of Public
40. Provincial Autonomy Act was passed in the year
- (A) 1934
(B) 1935
(C) 1936
(D) 1937
41. Indirect Taxes are
- (A) Progressive
(B) Regressive
(C) Degressive
(D) Proportional
42. Which of the following is not a Direct Tax ?
- (A) Income Tax
(B) Expenditure Tax
(C) Corporate Tax
(D) None of the above

43. मन्दी की स्थिति में प्रो. कीन्स ने कैसे बजट का समर्थन किया ?
- (A) सन्तुलित बजट
(B) घाटे का बजट
(C) आधिक्य बजट
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
44. राजस्व का अर्थ होता है :
- (A) निजी वित्त
(B) सार्वजनिक वित्त
(C) संस्थागत वित्त
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
45. 'वैट' लगाया जाता है :
- (A) आन्तरिक उत्पादन एवं आयतन पर
(B) माल के निर्यात पर
(C) विदेशी विनिमय पर
(D) वस्तुओं के आयात पर
46. ग्यारहवें वित्त आयोग का गठन किया गया था :
- (A) 1 जनवरी, 1995 को
(B) 3 जुलाई, 1998 को
(C) 15 जनवरी, 2000 को
(D) 5 अगस्त, 1999 को
43. In case of depression Prof. Keynes supported :
- (A) Balanced Budget
(B) Deficit Budget
(C) Surplus Budget
(D) None of the above
44. Public Revenue is meant by :
- (A) Private Finance
(B) Public Finance
(C) Institutional Finance
(D) None of the above
45. 'VAT' is applied on the :
- (A) Internal production and volume
(B) Export of goods
(C) Foreign exchange
(D) Import of goods
46. Eleventh Finance Commission was constituted on :
- (A) 1st Jan., 1995
(B) 3rd July, 1998
(C) 15th Jan., 2000
(D) 5th August, 1999

47. भारत में वित्त व्यवस्था के अन्तर्गत आती है।
- (A) अन्तर्राज्यीय वित्त व्यवस्था
(B) एकल वित्त व्यवस्था
(C) संघीय वित्त व्यवस्था
(D) ग्रामीण वित्त व्यवस्था
48. निम्नलिखित में से कौन-सी आय के अध्ययन की एक शाखा है ?
- (A) बँटवारा शाखा
(B) वितरण शाखा
(C) स्थिरीकरण शाखा
(D) उपर्युक्त सभी
49. प्लेहन के अनुसार राजस्व है।
- (A) एक विज्ञान
(B) एक कला
(C) दोनों (A) और (B)
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
50. संविधान का कौन सा आर्टिकल भारत के राष्ट्रपति को वित्त आयोग के गठन का अधिकार प्रदान करता है ?
- (A) आर्टिकल 264
(B) आर्टिकल 293
(C) आर्टिकल 280
(D) इनमें से कोई नहीं
47. Financial System in India comes under
- (A) Inter-State Financial System
(B) Unitary Financial System
(C) Federal Financial System
(D) Rural Financial System
48. Which of the following is a branch of studying Public Revenue ?
- (A) Allocation Branch
(B) Distribution Branch
(C) Stabilisation Branch
(D) All of the above
49. According to Plehan Public Finance is
- (A) A Science
(B) An Art
(C) Both (A) and (B)
(D) None of the above
50. Which Article provides the power to the President of India to appoint Finance Commission of constitution ?
- (A) Article 264
(B) Article 293
(C) Article 280
(D) None of these

51. निम्नलिखित में से कौन-सा एक संघीय कर है ?
- (A) निगमीय कर
(B) कृषि आय पर कर
(C) भू-राजस्व
(D) उपर्युक्त सभी
52. व्यक्तियों की आय पर केन्द्र सरकार द्वारा लगाये जाने वाले कर को कहते हैं :
- (A) व्यक्तिगत आयकर
(B) ब्याज कर
(C) सामान्य कर
(D) निगमीय कर
53. लोक व्यय तथा लोक आय के अन्तर को कहते हैं :
- (A) आगम घाटा
(B) राजस्व घाटा
(C) बजट घाटा
(D) प्राथमिक घाटा
54. निम्नलिखित में से कौन-सा राजस्व का महत्व है ?
- (A) उत्पादकता में वृद्धि
(B) पूर्ण रोजगार की सुनिश्चितता
(C) सामाजिक कल्याण
(D) उपर्युक्त सभी
51. Which of the following is a Union Tax ?
- (A) Corporate Tax
(B) Taxes on Agriculture Income
(C) Land Revenue
(D) All of the above
52. The tax levied by the Central Government on earning of individuals is called :
- (A) Personal Income Tax
(B) Interest Tax
(C) General Tax
(D) Corporate Tax
53. Difference between Public expenditure and Public receipts is :
- (A) Revenue Deficit
(B) Fiscal Deficit
(C) Budget Deficit
(D) Primary Deficit
54. Which of the following is an importance of Public Finance ?
- (A) Increase productivity
(B) Certainty of full employment
(C) Social welfare
(D) All of the above

55. राजस्व की दो मुख्य क्रियाएँ क्या हैं ?
- (A) कर एवं ऋण
(B) लाभ एवं हानि
(C) आय एवं व्यय
(D) विदेशी ऋण एवं उसका उपयोग
55. Which are the two main activities of Public Finance ?
- (A) Tax and Debt
(B) Profit and Loss
(C) Income and Expenditure
(D) Foreign debt and its uses
56. विज्ञान के रूप में लोक वित्त है एक :
- (A) काल्पनिक विज्ञान
(B) अकाल्पनिक विज्ञान
(C) आदर्श विज्ञान
(D) अन्त्योदय विज्ञान
56. As a science Public Finance is an :
- (A) Imaginary science
(B) Unimaginary science
(C) Ideal science
(D) Antyodaya science
57. अर्द्धविकसित देशों में राजस्व का प्रमुख उद्देश्य होता है :
- (A) पूँजी निर्माण को प्रोत्साहित करना
(B) राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना
(C) मुद्रा स्फीति को रोकना
(D) उपर्युक्त सभी
57. The main aim of revenue in underdeveloped countries is :
- (A) To promote capital formation
(B) To increase National Income
(C) To check inflation
(D) All of the above
58. “राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जो अपने कार्यों द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ को प्राप्त कर सकती है।” यह कथन है :
- (A) पीगू का
(B) डाल्टन का
(C) मसग्रेव का
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
58. “The best system of Public Finance is that which receives the maximum social advantage.” This statement is given by :
- (A) Pigou
(B) Dalton
(C) Musgrave
(D) None of the above

59. निजी वस्तुओं के उपभोग के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं में :
- (A) तटस्थता रहती है
(B) प्रतिद्वन्द्विता रहती है
(C) प्रतिद्वन्द्विता नहीं रहती है
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
60. बजट तैयार किया जाता है :
- (A) नकद आधार पर
(B) सकल आधार पर
(C) दोनों (A) और (B)
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
61. अपवर्जन सिद्धान्त के संदर्भ में क्रियाशील होता है।
- (A) सार्वजनिक वस्तुएँ
(B) निजी वस्तुओं
(C) दोनों (A) और (B)
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
62. लोकवित्त का विशुद्ध सिद्धान्त के द्वारा प्रतिपादित किया गया था।
- (A) वैगनर
(B) बैस्टेबल
(C) लर्नर
(D) सैलिगमैन
59. In consumption of private goods consumers are :
- (A) Neutral
(B) Competitive
(C) Non-competitive
(D) None of the above
60. Budget is prepared on :
- (A) Cash basis
(B) Gross Amount basis
(C) Both (A) and (B)
(D) None of the above
61. Exclusion principle becomes operative regarding :
- (A) Public goods
(B) Private goods
(C) Both (A) and (B)
(D) None of the above
62. Pure Theory of Public Finance was profound by
- (A) Wagner
(B) Bestable
(C) Lerner
(D) Saligman

63. शून्य आधारित बजट का सिद्धान्त विकसित किया गया था :
- (A) पीटर ए. पेयर द्वारा
(B) पीटर ड्रकर द्वारा
(C) कीन्स द्वारा
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
64. प्रतिष्ठित विचारधारा अर्थशास्त्री समर्थक थे :
- (A) सन्तुलित बजट के
(B) घाटे के बजट के
(C) आधिक्य बजट के
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
65. लोकवित्त सम्बन्धित है :
- (A) राजनीति विज्ञान से
(B) समाजशास्त्र से
(C) अर्थशास्त्र से
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
66. डॉ. डाल्टन के अनुसार सामाजिक कल्याण का आकलन करते समय को ध्यान में रखना चाहिए।
- (A) वर्तमान
(B) भविष्य
(C) दोनों (A) और (B)
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
63. The principle of Zero Based Budgeting was developed by :
- (A) Peter A. Phyer
(B) Peter Drucker
(C) Keynes
(D) None of the above
64. The classical concept economists were in favour of :
- (A) Balanced Budget
(B) Deficit Budget
(C) Surplus Budget
(D) All of the above
65. Public Finance is concerned with :
- (A) Political Science
(B) Sociology
(C) Economics
(D) All of the above
66. According to Dr. Dalton while assessing social welfare should be taken into consideration.
- (A) Present
(B) Future
(C) Both (A) and (B)
(D) None of the above

67. कर का प्रभाव प्रत्येक स्रोत पर होना चाहिए।
- (A) असमान
(B) समान
(C) अदृश्य
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
67. Incidence of taxation on every source should be
- (A) Unequal
(B) Equal
(C) Invisible
(D) None of the above
68. निम्नलिखित में से कौन-सा बजट का एक लक्षण है ?
- (A) वार्षिक आधार
(B) सन्तुलित बजट
(C) नकदी का आधार
(D) उपर्युक्त सभी
68. Which of the following is a characteristic of Budget ?
- (A) Annual Basis
(B) Balanced Budget
(C) Basis of Cash
(D) All of the above
69. बजट का अनुमान के द्वारा तैयार किया जाता है।
- (A) वित्त मंत्रालय
(B) वित्त मन्त्री
(C) भारतीय रिजर्व बैंक
(D) भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर
69. Budget estimation are prepare by
- (A) Finance Ministry
(B) Finance Minister
(C) Reserve Bank of India
(D) Governor of Reserve Bank of India

70. बजट की प्राक्कलन समिति का गठन वर्ष में किया गया था।

- (A) 1949
- (B) 1950
- (C) 1953
- (D) 1956

71. निम्नलिखित में से कौन-सा हीनार्थ प्रबन्ध का एक उद्देश्य है ?

- (A) मूल्य स्तर बनाये के रखना
- (B) आर्थिक वृद्धि
- (C) मन्दीकाल को नियन्त्रित करना
- (D) उपर्युक्त सभी

72. प्रायः सार्वजनिक व्यय के द्वारा सन्तुष्टि की जाती है :

- (A) वर्ग विशेष की आवश्यकताओं की
- (B) व्यक्तिगत आवश्यकताओं की
- (C) सामूहिक आवश्यकताओं की
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

70. Estimate Committee on budget was constructed in the year

- (A) 1949
- (B) 1950
- (C) 1953
- (D) 1956

71. Which of the following is an objective of deficit financing ?

- (A) Maintaining price level
- (B) Economic growth
- (C) Controlling depression
- (D) All of the above

72. Generally Public Expenditure satisfy the requirements of :

- (A) Particular group
- (B) Individual
- (C) Collective group
- (D) None of the above

73. किसने कहा है कि “सार्वजनिक क्षेत्र में वृद्धि चरणों में होती है” ?
- (A) वैगनर
(B) पीकॉक वाइजमैन
(C) कोलिन क्लार्क
(D) कीन्स
74. भारत में वित्तीय नियन्त्रण के द्वारा किया जाता है।
- (A) विधान सभा और संसद
(B) लोक सभा
(C) राज्य सभा
(D) भारतीय रिजर्व बैंक
75. सार्वजनिक व्यय का प्रभाव पर पड़ता है।
- (A) उत्पादन
(B) वितरण
(C) उपभोग
(D) उपर्युक्त सभी
73. Who has said that “Growth of public sector tends to occur on a step like basis” ?
- (A) Wagner
(B) Peacock Wiseman
(C) Colin Clark
(D) Keynes
74. Financial control in India is done by
- (A) Legislative Assembly and Parliament
(B) Lok Sabha
(C) Rajya Sabha
(D) Reserve Bank of India
75. Public Expenditure has the effect on
- (A) Production
(B) Distribution
(C) Consumption
(D) All of the above

76. मन्दीकाल में पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए किए गये व्यय को कहते हैं :
- (A) विनियोग
(B) आर्थिक सहायता
(C) क्षतिपूरक व्यय
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
77. कार्य और बचत करने की इच्छा पर सार्वजनिक व्यय का प्रभाव सदैव :
- (A) अनुकूल होता है
(B) सार्वजनिक व्यय की प्रकृति तथा सरकार की नीति पर निर्भर करता है
(C) प्रतिकूल होता है
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
78. शिक्षा, प्रशिक्षण, जन-स्वास्थ्य आदि पर किए गये व्यय को कहते हैं।
- (A) पूँजी निर्माण
(B) मानव पूँजी निर्माण
(C) तकनीकी प्रगति
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
76. Under depression, the expenditure incurred to achieve full employment is called :
- (A) Investment
(B) Subsidies
(C) Compensatory Expenditure
(D) None of the above
77. The effect of Public Expenditure upon the desire to work and do saving is always :
- (A) Favourable
(B) Depend on nature of Public Expenditure and Government Policy
(C) Unfavorable
(D) None of the above
78. The expenditure on education, training and public health etc. is called
- (A) Capital formation
(B) Human capital formation
(C) Technical development
(D) None of the above

79. कर के उत्पादकता के सिद्धान्त का प्रतिपादन ने किया है।
- (A) एडम स्मिथ
(B) कीन्स
(C) बैस्टेबल
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
79. The canon of productivity of taxation was propounded by :
- (A) Adam Smith
(B) Keynes
(C) Bastable
(D) None of the above
80. इनमें से कौन-सा एक करारोपण का आधुनिक सिद्धान्त नहीं है ?
- (A) उत्पादकता का सिद्धान्त
(B) विविधता का सिद्धान्त
(C) परिवर्तनशीलता का सिद्धान्त
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
80. Which of the following is not a modern canon of taxation ?
- (A) Canon of productivity
(B) Canon of diversity
(C) Canon of flexibility
(D) None of the above
81. लाभ के अनुसार सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण किसने किया है ?
- (A) कोहन व प्लेहम
(B) डाल्टन
(C) जे. के. मेहता
(D) मिल
81. Who has classified the public expenditure on the basis of benefits ?
- (A) Cohn and Plehme
(B) Dalton
(C) J. K. Mehta
(D) Mill

82. सरकारी राजस्व का कौन-सा/से स्रोत है/हैं ?

- (A) प्रशासनिक आय
- (B) कर
- (C) व्यावसायिक आय
- (D) उपर्युक्त सभी

82. Source(s) of Public Revenue is/are :

- (A) Administrative income
- (B) Tax
- (C) Commercial income
- (D) All of the above

83. सरकार के गैर-कर आगम में शामिल होते हैं :

- (A) उपहार
- (B) सरकारी सम्पत्ति से आय
- (C) सरकारी उद्योगों से प्राप्त आय
- (D) उपर्युक्त सभी

83. The non-tax revenue of government include :

- (A) Gift
- (B) Income from government property
- (C) Income from Public Enterprises
- (D) All of the above

84. रेल, डाक, टेलीफोन आदि सेवाओं के बदले में लिया जाता है :

- (A) मूल्य
- (B) जुर्माना
- (C) कर
- (D) विशेष कर-निर्धारण

84. In return of service of rail, post, telephone etc. government charges :

- (A) Price
- (B) Fines
- (C) Tax
- (D) Special Assessment

85. प्रो. सैलिगमैन ने लोक आय को भागों में वर्गीकृत किया है।

- (A) दो
- (B) तीन
- (C) चार
- (D) पाँच

86. वैगनर का अर्थशास्त्री था।

- (A) फ्रांस
- (B) जर्मनी
- (C) ऑस्ट्रिया
- (D) इटली

87. एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक “वेल्थ ऑफ नेशन्स” वर्ष में लिखी थी।

- (A) 1876
- (B) 1771
- (C) 1776
- (D) 1676

85. Prof. Saligman has classified public income in parts.

- (A) Two
- (B) Three
- (C) Four
- (D) Five

86. Wagner was the economist of

- (A) France
- (B) Germany
- (C) Austria
- (D) Italy

87. Adam Smith wrote his book “Wealth of Nations” in the year:

- (A) 1876
- (B) 1771
- (C) 1776
- (D) 1676

88. निम्नलिखित में से कौन-सा कर का एक प्रकार नहीं है ?
- (A) प्रतिगामी कर
(B) अधोगामी कर
(C) प्रगतिशील कर
(D) आक्रामक कर
88. Which of the following is not a type of tax ?
- (A) Regressive Tax
(B) Degressive Tax
(C) Progressive Tax
(D) Aggressive Tax
89. निम्नलिखित में से कौन-सा केन्द्र सरकार के गैर-कर आय के अन्य साधनों से आय का स्रोत है ?
- (A) पत्र-मुद्रा निर्गमन
(B) रेलवे
(C) ऐच्छिक एवं बलात् ऋण
(D) उपर्युक्त सभी
89. Which of following is other source of non-tax revenue of Central Government ?
- (A) Issue of Paper Currency
(B) Railway
(C) Voluntary and compulsory debt
(D) All of the above
90. भारतीय संविधान का अनुच्छेद बजट को एक वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में परिभाषित करता है।
- (A) 215
(B) 115
(C) 255
(D) 155
90. Article of Indian Constitution defines budget as an annual financial statement.
- (A) 215
(B) 115
(C) 255
(D) 155

91. आर्थिक प्रशासन सुधार हेतु झा आयोग का गठन में किया गया था।
- (A) 1971
(B) 1961
(C) 1981
(D) 1991
92. भारतीय कर संरचना में की प्रधानता है।
- (A) प्रत्यक्ष कर
(B) अप्रत्यक्ष कर
(C) दोनों (A) और (B)
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
93. निम्नलिखित में से कौन-सा स्थानीय संस्थाओं की आय का एक अप्रत्यक्ष स्रोत नहीं है ?
- (A) चुंगी कर
(B) सीमा कर
(C) सम्पत्ति कर
(D) सुधार कर
91. Jha Commission on Economic Administrative Reforms was formed in
- (A) 1971
(B) 1961
(C) 1981
(D) 1991
92. In Indian Tax Structure there is predominance of
- (A) Direct Tax
(B) Indirect Tax
(C) Both (A) and (B)
(D) None of the above
93. Which of the following is not an indirect source of revenue of local bodies ?
- (A) Octroi Tax
(B) Terminal Tax
(C) Property Tax
(D) Improvement Tax

94. भारत में आयात कर लगाने का उद्देश्य है :
- (A) आय प्राप्त करना
(B) घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना
(C) दोनों (A) और (B)
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
94. The objective of imposing Import duty in India is :
- (A) To earn income
(B) To protect domestic industries
(C) Both (A) and (B)
(D) None of the above
95. भारत सरकार ने सेवा कर वर्ष में लागू किया था।
- (A) 1991
(B) 1994
(C) 1996
(D) 1998
95. Service Tax was implemented by Government of India in the year
- (A) 1991
(B) 1994
(C) 1996
(D) 1998
96. भारत में पूँजी लाभ कर सर्वप्रथम वर्ष में लगाया गया था।
- (A) 1946
(B) 1947
(C) 1950
(D) 1962
96. Capital gain tax was firstly implemented in India in the year
- (A) 1946
(B) 1947
(C) 1950
(D) 1962
97. करारोपण निश्चितता सिद्धान्त के अनुसार निश्चित होना चाहिए :
- (A) भुगतान का समय
(B) कर की राशि
(C) भुगतान की विधि
(D) उपर्युक्त सभी
97. According to canon of certainty of taxation there should be certainty of :
- (A) Time of Payment
(B) Amount of Tax
(C) Process of Payment
(D) All of the above

98. जब किसी कर का कराघात तथा करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है, तो उसे कहते हैं :

- (A) अप्रत्यक्ष कर
- (B) प्रत्यक्ष कर
- (C) अधोगामी कर
- (D) प्रगतिशील कर

99. कर की दर के अनुसार एक आनुपातिक कर-प्रणाली क्या है ?

- (A) कर की दर समान रहे
- (B) प्रत्येक को समान कर राशि चुकानी पड़े
- (C) कर की दर में कमी हो
- (D) कर की दर में वृद्धि हो

100. विशिष्ट कर क्या है ?

- (A) आकार के अनुसार लगाया गया कर
- (B) मूल्य के अनुसार लगाया गया कर
- (C) एक व्यक्ति पर लगाया गया कर
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

98. When the impact and incidence of tax takes place on the same person, it is called :

- (A) Indirect Tax
- (B) Direct Tax
- (C) Degressive Tax
- (D) Progressive Tax

99. According to rate of taxes, what is a proportional tax system ?

- (A) Rate of tax remains same
- (B) Everyone has to pay equal amount of tax
- (C) Rate of tax decreases
- (D) Rate of tax increases

100. What is specific tax ?

- (A) Tax levied according to size
- (B) Tax levied according to value
- (C) Tax levied on an individual
- (D) None of the above

4. Four alternative answers are mentioned for each question as—A, B, C & D in the booklet. The candidate has to choose the most correct/appropriate answer and mark the same in the OMR Answer-Sheet as per the direction :

Example :

Question :

Q. 1 (A) ☒ (B) (C) (D)

Q. 2 (A) (B) ☒ (C) (D)

Q. 3 (A) ☒ (B) (C) (D)

Illegible answers with cutting and over-writing or half filled circle will be cancelled.

5. Each question carries equal marks. Marks will be awarded according to the number of correct answers you have.
6. All answers are to be given on OMR Answer sheet only. Answers given anywhere other than the place specified in the answer sheet will not be considered valid.
7. Before writing anything on the OMR Answer Sheet, all the instructions given in it should be read carefully.
8. After the completion of the examination candidates should leave the examination hall only after providing their OMR Answer Sheet to the invigilator. Candidate can carry their Question Booklet.
9. There will be no negative marking.
10. Rough work, if any, should be done on the blank pages provided for the purpose in the booklet.
11. To bring and use of log-book, calculator, pager and cellular phone in examination hall is prohibited.
12. In case of any difference found in English and Hindi version of the question, the English version of the question will be held authentic.

Impt. : On opening the question booklet, first check that all the pages of the question booklet are printed properly. If there is any discrepancy in the question Booklet, then after showing it to the invigilator, get another question Booklet of the same series.

4. प्रश्न-पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के चार सम्भावित उत्तर—A, B, C एवं D हैं। परीक्षार्थी को उन चारों विकल्पों में से एक सबसे सही अथवा सबसे उपयुक्त उत्तर छोटना है। उत्तर को OMR आन्सर-शीट में सम्बन्धित प्रश्न संख्या में निम्न प्रकार भरना है :

उदाहरण :

प्रश्न :

प्रश्न 1 (A) ☒ (B) (C) (D)

प्रश्न 2 (A) (B) ☒ (C) (D)

प्रश्न 3 (A) ☒ (B) (C) (D)

अपठनीय उत्तर या ऐसे उत्तर जिन्हें काटा या बदला गया है, या गोले में आधा भरकर दिया गया, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।

5. प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। आपके जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।
6. सभी उत्तर केवल ओ. एम. आर. उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर ही दिये जाने हैं। उत्तर-पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
7. ओ. एम. आर. उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाये।
8. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी OMR Answer Sheet उपलब्ध कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष से प्रस्थान करें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न-पुस्तिका ले जा सकते हैं।
9. निगेटिव मार्किंग नहीं है।
10. कोई भी रफ कार्य, प्रश्न-पुस्तिका के अन्त में, रफ-कार्य के लिए दिए खाली पेज पर ही किया जाना चाहिए।
11. परीक्षा-कक्ष में लॉग-बुक, कैलकुलेटर, पेजर तथा सेल्युलर फोन ले जाना तथा उसका उपयोग करना वर्जित है।
12. प्रश्न के हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण में भिन्नता होने की दशा में प्रश्न का अंग्रेजी रूपान्तरण ही मान्य होगा।

महत्वपूर्ण : प्रश्नपुस्तिका खोलने पर प्रथमतः जाँच कर देख लें कि प्रश्न-पुस्तिका के सभी पृष्ठ भलीभाँति छपे हुए हैं। यदि प्रश्नपुस्तिका में कोई कमी हो, तो कक्षनिरीक्षक को दिखाकर उसी सिरीज की दूसरी प्रश्न-पुस्तिका प्राप्त कर लें।